



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 3—मार्च 9, 2012 (फाल्गुन 13, 1933)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 3—MARCH 9, 2012 (PHALGUNA 13, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

(सरकारी और बैंक लेखा विभाग)

मुंबई, दिनांक 20 जनवरी 2012

सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 की धारा 32 के अंतर्गत बनाए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा बनाये गए सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2007 के विनियम 14 के अनुसरण दिनांक 01 दिसम्बर 2007 को प्रकाशित किए गए राजपत्र सं. 22 के अनुसार तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ (8) 70/बी. 52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी 1990 के धारण राजपत्र 67 के अंतर्गत दिसम्बर 2011 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गयी हैं और आवेदकों का दावा न्यायोचित है। नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल महाप्रबन्धक, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण विभाग, मुंबई रेलवे स्टेशन के सामने, मुंबई-400008 को सूचित करें।

सूची "क"

ऋण का नाम	प्रतिभूतियों की सं.	मूल्य रु./ग्राम	किस व्यक्ति के नाम जारी किया	किस तिथि से बकाया ब्याज	प्रतिभूति के भुगतान के लिए दावेदार का नाम	कार्यालयीन आदेश की तिथि और संख्या
1	2	3	4	5	6	7
9% राहत बांड 1987 (जी.पी. नोट)	बीएल 000218	1,50,000/-	श्रीमती लीला महाजन और श्री अशोक महाजन	26.08.1988	श्रीमती लीला महाजन और श्री अशोक महाजन	महाप्रबंधक के 19.12.2011 आदेशानुसार

अनिल द. राणे
सहा. प्रबंधक

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
नई दिल्ली-110002, दिनांक 7 फरवरी 2012
(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-209/2012--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान को परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश सं. 1/2007 में 18 नवम्बर, 2010 को यह आदेश दिया है कि श्री कुल रत्न भसीन, एफसीए, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 61/5, अनमोल हाउस, युसूफ सराय मार्किट, नई दिल्ली-110016, (सदस्य सं. 081304) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अधीन "अन्य अवचार" के अन्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री कुल रत्न भसीन का नाम तारीख 01 अप्रैल, 2012 से पांच वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उस अवधि के दौरान वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

टी. कार्तिकेयन
सचिव

केन्द्रीय भण्डारण निगम
नई दिल्ली-110016, दिनांक 25 नवम्बर 2011

सूचना

सं. सीडब्ल्यूसी/III-42/ईडीबी-2011/बी एंड सी--केन्द्रीय भण्डारण निगम नियमावली, 1963 के नियम 13 के अनुसरण में वेअरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 7 की उपधारा 1 के खण्ड (डी) में विनिर्दिष्ट अंशधारियों के वर्ग से रिक्त हुए पद को भरने के लिए दिनांक 23.12.2011 से तीन वर्ष की अवधि के लिए दिनांक 11.11.2011 को निर्विरोध निर्वाचित निदेशक का नाम व पता नीचे दिए अनुसार अधिसूचित किया जाता है :--

अंशधारी वर्ग	निदेशक का नाम व पता
अन्य अधिसूचित बैंक	श्री बी. एन. एस. रत्नाकर, महा प्रबंधक, सैन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जोनल ऑफिस, लिंक हाउस, 3, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002

पी. के. गोस्वामी
सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

(DEPARTMENT OF GOVERNMENT & BANK ACCOUNTS)

Mumbai, the 20th January 2012

In pursuance of Regulation 14 of the Government Securities Regulations, 2007 made by the Reserve Bank of India under Section 32 of the Government Securities Act, 2006 and published in the Gazette No. 228 of December 1, 2007 the following list of securities lost etc., for the month of December 2011, in respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and the claim of applicant is just, is hereby advertised. All persons other than the respective claimants named below, who have any claim upon these securities should communicate immediately to Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Opp. Mumbai Central Railway Station, Mumbai-400008.

List

Nomenclature of the Loan	Security Number	Value in Rs./Grams	In whose Name Issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6	7
9% Relief Bonds 1987 (GP Note)	BL 000218	1,50,000/-	Smt. Leela Mahajan and Shri Ashok Mahajan	26.08.1988	Smt. Leela Mahajan and Shri Ashok Mahajan	GM Order dated 19.12.2011

A. D. RANE
Asstt. Manager

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi-110002, the 7th February 2012

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-209/2012—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 1/2007, ordered on 18th November, 2010 that the name of Shri Kul Rattan Bhasin, FCA, Chartered Accountant, 61/5, Anmol House, Yusuf Sarai Market, New Delhi-110016 (M. No. 081304) be removed from the Register of Members for a period of five years for having been found guilty of Professional Misconduct within the meaning of "Other Misconduct" under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Kul Rattan Bhasin shall stand removed from the Register of Members for a period of five years w.e.f. 1st April, 2012. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi.

T. KARTHIKEYAN
Secy.

CENTRAL WAREHOUSING CORPORATION

New Delhi-110016, the 25th November 2011

NOTICE

No. CWC/III-42/EDB-2011/B&C—In pursuance of Rule 13 of the Central Warehousing Corporation Rules, 1963, the name and address of the Director elected un-opposed on 11.11.2011 from the class of Shareholders specified in clause(d) of Sub-Section 1 of Section 7 of Warehousing Corporations Act, 1962, for a period of three years w.e.f. 23.12.2011 to fill in the vacancy is notified as under :—

Class of Shareholders	Name & Address of the Director
Other Scheduled Banks	Shri B.N.S. Ratnakar, General Manager, Central Bank of India, Zonal Office, Link House 3, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

P. K. GOSWAMI
Secy.